

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरातन कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(A Miniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



**CIN- U10102MP1985GOI003160**

**An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company**

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/457

दिनांक - 05/12/2017

प्रेस विज्ञप्ति

एनएससी में सीएसआर के तहत किया जा रहा है घुटने एवं कूल्हे के दर्द का  
निःशुल्क इलाज

चिन्हित मरीजों का किया जाएगा मुफ्त घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) अपने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत अपने परिक्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु निरंतर कटिबद्ध है। एनसीएल की इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए कंपनी के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी), जयंत ने घुटने एवं कूल्हे के दर्द से पीड़ित मरीजों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। घुटने एवं कूल्हे के दर्द के ऐसे मरीज, जिन्हें चलने-फिरने में परेशानी हो रही है वे आगामी 15 दिसंबर तक एनएससी के अस्थिशल्य (आर्थोपेडिक्स) विभाग में अस्पताल के चिकित्सकों से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं।

परामर्श के दौरान गंभीर रूप से बीमार मरीजों को चिन्हित कर बाद में मुफ्त ऑपरेशन कर घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण किया जाएगा। प्रत्यारोपण में गरीबी रेखा से नीचे के जीवन बसर करने वाले (बीपीएल) परिवारों के मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑपरेशन दिल्ली एवं हैदराबाद से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा।

गौरतलब है कि एनएससी अपनी सीएसआर योजना के तहत समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर जरूरतमंद लोगों की विभिन्न बीमारियों का मुफ्त इलाज करता है। एनएससी द्वारा इससे पहले वर्ष 2015 एवं 2016 में भी इसी प्रकार बड़ा अभियान चलाकर जरूरतमंद लोगों का घुटने एवं कूल्हों का प्रत्यारोपण किया गया था।

(जनसम्पर्क अधिकारी)